

**केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017**

**धारा 77 : गलती से संगृहीत किया गया और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर**

- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा राज्य के भीतर पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतर्राज्यीय पूर्ति अभिनिधारित किया जाता है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रतिदाय किया जाएगा।
- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतर्राज्यीय पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से राज्य के भीतर पूर्ति अभिनिधारित किया गया है, से, संदेय केन्द्रीय कर और राज्य कर या यथास्थिति, केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।
-